

प्रेस नोट

***थाना रजबपुर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का खुलासा कर शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की हुई 02 मोटर साइकिल व अवैध असलहा (तमंचा व कारतूस 315 बोर) बरामद* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लांग्हे के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जनपद अमरोहा में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्री चन्द्र प्रकाश शुक्ल अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा के निकट पर्यवेक्षण में थाना रजबपुर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना का खुलासा कर शातिर वाहन चोर गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की हुई 02 मो0सा0 व अवैध असलहा (तमंचा व कारतूस 315 बोर) बरामद हुये ।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 05.08.2022 को थाना रजबपुर पुलिस द्वारा सूचना पर सर्विस रोड नेशनल हाईवे 9 नहर पटरी कपास के पास से शातिर वाहन चोर जयवीर सिंह पुत्र नेम सिंह निवासी ग्राम बकैनिया थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की हुई 02 मोटर साइकिल व अवैध असलहा (तमंचा व कारतूस 315 बोर) बरामद हुये । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रजबपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये ।

पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा आर्थिक लाभ लेने हेतु दोपहिया वाहनों की चोरी करना बताया गया साथ ही बरामद स्पलैन्डर प्लस मो0सा0 रजि0न0 UP23AF 4385 को दिनांक 02.08.2022 की रात में मोनू ढाबा के पास से चोरी करना (सम्बन्धित मु0अ0सं0 167/22 धारा 379/411 भादवि थाना रजबपुर) तथा तथा बरामद सुपर स्पलैन्डर मो0सा0 को कई साल पहले ब्रहमपुरी

नई दिल्ली से चोरी करना बताया गया । थाना रजबपुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



***गिरफ्तार अभियुक्त*-**

1. जयवीर सिंह पुत्र नेम सिंह निवासी ग्राम बकैनिया थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ।

***बरामदगी का विवरण*- चोरी की हुई 02 मो0सा0 व अवैध असलहा**

1. हीरो स्पलैन्डर प्लस मो0सा0 रजि0न0 UP23AF 4385
(सम्बन्धित मु0अ0सं0 167/22 धारा 379 भादवि थाना रजबपुर जनपद अमरोहा) ।
चेसिस नं0- MBLHAW117MHB71140, इंजन नं0- HA11EVMHB71160
2. हीरो सुपर स्पलैन्डर मो0सा0 (बिना रजि0न0)
चेसिस नं0- MBLJAR039H9F14617 इंजन नं0- JA05EGH9F21703
3. अवैध असलहा एक तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर ।

***अपराधिक इतिहास अभियुक्त जयवीर सिंह*:-**

1. मु0अ0सं0 167/22 धारा 379/411 भादवि थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 169/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।

3. मु0अ0सं0 170/22 धारा 411/414 भादवि 41/102 दं0प्र0सं0 थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष रमेश सहरावत थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 अजय कुमार थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।
3. उ0नि0 कमल सिंह थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।
4. का0 940 कृष्णवीर सिंह थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।
5. का0 453 इरशाद चौधरी थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।

PRO CELL AMROHA